

**साध्वी निरंजन ज्योति**  
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण**  
**एवं ग्रामीण विकास, राज्य मंत्री**  
**भारत सरकार**

**बाल्यकाल एवं शिक्षा**

- उत्तर प्रदेश के सुदूर ग्राम-पत्योरा, मलिहाताला, जिला-हमीरपुर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मजदूर परिवार में 1 मार्च सन-1967 को जन्म हुआ. बाल्यकाल से ही सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव की होने के कारण 14 वर्ष की आयु में ही ब्रम्हलीन पूज्य गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद जी महाराज की शरण में आकर सन्यास दीक्षा लीं एवं पूज्य युगपुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के संरक्षण में देश में धर्म का प्रचार-प्रसार किया. सन्यासी होकर अध्यात्म की यात्रा के साथ-साथ बारहवीं की शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक जीवन में सक्रिय हो गयीं।

**सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन**

- 1987 में विश्व हिन्दू परिषद के संपर्क में आकर सक्रियता के साथ श्रीराम जन्म भूमि आन्दोलन में पूरे देशभर में प्रवास करते हुए जनजागरण कर अलख जगाया ।  
- वनवासी-गिरिवासी व अभावग्रस्त लोगों के बीच भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए एकल विद्यालय, श्रीहरि सत्संग समिति की संरक्षिका के रूप में सम्पूर्ण भारत में प्रवास कीं. दुर्गावाहिनी उत्तर प्रदेश की संरक्षिका तथा साध्वी शक्ति परिषद की केन्द्रीय पदाधिकारी तथा विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल के सदस्य के रूप में सक्रिय रहीं ।

**राजनैतिक जीवन**

- सन-1990 में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार-प्रसार में सक्रियता से लग गए. 2002 में हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) विधान सभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहला चुनाव लड़ीं ।  
- 2003 में भाजपा (उत्तर प्रदेश) समाज कल्याण प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य रहीं ।  
- 2007 में पुनः हमीरपुर (उप्र) विधान सभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दूसरा चुनाव लड़ीं ।  
- 2008 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं ।

- 2010 से 2012 तक उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश मंत्री रहीं ।
- 2012 में हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) विधान सभा सीट से लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ीं और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर विधायक बनीं ।
- 2012 से 2013 में उत्तर प्रदेश महिला बाल विकास पुष्टाहार समिति की सदस्य रहीं ।
- 2013 से 2014 में उत्तर प्रदेश प्राक्कलन समिति की सदस्य रहीं ।
- 2012 से 2015 में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतीं एवं सामाजिक अधिकारिता कल्याण समिति की सदस्य रहीं ।
- माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में-
- 9 नवम्बर 2014 से मई 2019 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री,
- 30 मई 2019 से ग्रामीण विकास राज्य मंत्री तथा 07 जुलाई 2021 से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के रूप में कार्य संभाल रहीं हैं ।

### रूचि

- गौसेवा ।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पढ़ाना ।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं का विवाह कराना ।

### भाषा

- हिंदी और संस्कृत ।

\*\*\*\*\*